



MY STUDYGURU

सभी अध्ययन सामग्री फ्री में उपलब्ध
UPSC | SSC | RRB | CTET | All
other state exams

www.mystudyguru.in

DAILY GENERAL AWARENESS QUIZ

DATE: 08 MAR 2020 (ECONOMICS)

1. GST (वस्तु एवं सेवा कर) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

- (A) GST ने देश में एक समान कर संरचना पेश की
- (B) GST ने देश में लगाए गए सभी प्रत्यक्ष कर को समाप्त कर दिया
- (C) GST एक अंत में लगाने वाला खुदरा कर है। इसलिए GST की बसूली बिक्री के समय या सेवा के समय ही की जाती है
- (D) 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था

2. परियोजना 'चमन' द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद है?

- (A) मत्स्य पालन
- (B) फसल बीमा
- (C) मृदा अनुसंधान
- (D) बागवानी

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. एम. नरसिम्हन की अध्यक्षता में ग्रामीण बैंक पर कार्य समूह की सिफारिशों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1976 के आरआरबी अधिनियम के तहत की गई थी।

2. RRB सिक्किम और गोवा को छोड़कर भारत के हर राज्य में काम कर रहे हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1, न ही 2

4. निम्नलिखित में से कौन सा जीडीपी डिप्लेटर (अपस्फीतिकारक) कहा जाता है?

- (A) अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात
- (B) अवास्तविक से वास्तविक जीएनपी का अनुपात
- (C) अवास्तविक से वास्तविक सीपीआई का अनुपात
- (D) वास्तविक से अवास्तविक जीएनपी का अनुपात

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. मुद्रा योजना (माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनंस एजेंसी बैंक) 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी।

2. अटल पेंशन-योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1, न ही 2

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. 1993 में पिछड़े वर्गों के लिये राष्ट्रीय आयोग अधिनियम को पारित किया गया था।

2. बैकलॉग रिक्रियों में 'कैरी फारवर्ड नियम' का प्रावधान जनता के अपर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किये गए वर्ग को सुरक्षित करने की विचारधारा को अंगीकार करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1, न ही 2

7. नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है?

- (A) योजना आयोग
- (B) वित्त आयोग
- (C) डीआरडीओ
- (D) इसरो

8. 'विश्व आर्थिक सम्भावना (ग्लोबल इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स)' रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है?

- (A) एशिया विकास बैंक
- (B) यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट)
- (C) यू० एस० फेडरल रिज़र्व बैंक
- (D) विश्व बैंक

9. जब भारतीय रिज़र्व बैंक सांविधिक नक़दी अनुपात (स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो) को 50 आधार अंक (बेसिस पाइंट) कम कर देता है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की सम्भावना होती है?

- (A) भारत की GDP विकास-दर प्रबलता से बढ़ेगी
- (B) विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लायेंगे।
- (C) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं।
- (D) इससे बैंकिंग व्यवस्था की नक़दी (लिक्विडिटी) में प्रबलता से कमी आ सकती है।

10. निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनघनत्व अधिकतम है?

- (A) अफ्रीका
- (B) यूरोप
- (C) उत्तरी अमेरिका
- (D) एशिया

Answers: - 1-B 2-D 3-C 4-A 5-C 6-C 7-A 8-D 9-C 10-D



www.mystudyguru.in